



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2013—माघ 19, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. ई.-5-463-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. स्वाई, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री आर. के. स्वाई की अवकाश अवधि में संबंधित विभागों का कार्य श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएस., कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा सीधे देखा जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. स्वाई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. स्वाई द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम. उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. स्वाई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. स्वाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-808-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 28 जनवरी से 7 फरवरी 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 एवं 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-904-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएस., उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 29 जनवरी से 1 फरवरी 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. ई.-5-393-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 28 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. ई.-5-369-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 28 जनवरी से 4 फरवरी 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26, 27 जनवरी 2013 एवं 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई.-5-409-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएस., विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम को दिनांक 29 जनवरी से 4 फरवरी 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती की अवकाश अवधि में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का प्रभार श्री संजय सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता तथा पशुपालन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. आर. मोहन्ती द्वारा विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री संजय सिंह, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा डॉ. देवराज बिरदी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. एफ-3-7-2012-1-4-संशोधित अधिसूचना.—राज्य शासन द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2013 को पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2012 (उत्तरार्द्ध) हेतु मतदान दिनांक 14 जनवरी 2013 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया था के स्थान पर अब दिनांक 16 जनवरी 2013 बुधवार को सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. ई-5-777-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 7 से 24 जनवरी 2013 तक, अठारह दिन का

अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 7 से 18 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव “कार्मिक”।

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. ई-5-369-आयएस-लीव-एक-5.—श्री अन्तोनी जे. सी. डिसा, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उक्त अवकाश स्वयं के अनुरोध पर एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. बातव, अवर सचिव “कार्मिक”।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-5-10-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्री डॉ. राकेश मिश्रा	सतना

(2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी। सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-5-10-2011-उन्तीस-2.—(1) राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्री महेन्द्र तिवारी	गुना
2	श्रीमती रीना शर्मा	गुना

(2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध रेगे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-5-04-2011-उन्तीस-2.—(1) राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	कुमारी मीना शर्मा	भिण्ड

(2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-5-04-2011-उन्तीस-2.—(1) राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती रीना मिश्रा	सीहोर
2	श्रीमती शकुन विजयवर्गीय	सीहोर

(2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. एफ-1(ए) 55-94-ब-2-दो.—(1) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 29 जनवरी से 8 फरवरी 2013 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश 9, 10 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. एफ-1(ए) 269-86-ब-2-दो.—(1) श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 25, 26, 27 जनवरी 2013 एवं 3 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ “कन्याकुमारी (व्हाया त्रिवेन्द्रम)” की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री एम. आर. कृष्णा — स्वयं
2. श्रीमती एम. इन्दिरा — पत्नी

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अशोक जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय), अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से, अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. 65-एफ (4) 17-स्था.-2011-अड़तालीस.—राज्य शासन श्री एल. सी. मोटवानी, उपसचिव, संसदीय कार्य विभाग को अपर सचिव के पद पर वेतनमान 37400—67000+8700 ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन” 58, अरेरा हिल्स,

भोपाल (म.प्र.)-462 011

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. एफ-65-01-2013-तीन-134.—आयोग के आदेश क्रमांक एफ-65-01-2013-तीन-111, दिनांक 29 जनवरी 2013 द्वारा नगरपालिका परिषद्, उमरिया, जिला उमरिया के निर्वाचन परिणामों

को अधिसूचित कराया गया है, यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक 40, दिनांक 29 जनवरी 2013 के पृष्ठ क्र. 79 पर मुद्रित है, इसमें त्रुटिपूर्ण अध्यक्ष पद के नाम को “कंचर खट्टर” के स्थान पर “कंचन खट्टर” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./—

(जी. पी. श्रीवास्तव),

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 137-स्था.-2012.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 2 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ए. के. सिंह (आई.ए.एस.) कलेक्टर, कटनी वर्ष 2013 के लिये अधोलिखित तालिका में दर्शित तिथियों में कटनी जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्रमांक (1)	छुट्टी का नाम (2)	दिनांक (3)	दिवस (4)
1	होली का दूसरा दिन	28-3-2013	गुरुवार
2	अनन्त चतुर्दशी	18-9-2013	बुधवार
3	दीपावली का दूसरा दिन	4-11-2013	सोमवार

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

ए. के. सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्र. 279-स्थापना-34-2012-13.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडें, कलेक्टर, जिला हरदा वर्ष 2013 में जिला हरदा के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार का नाम जिसके लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है (4)
1	22 अगस्त 2013	गुरुवार	कजलियां (रक्षाबंधन का दूसरा दिन)
2	18 सितम्बर 2013	बुधवार	अनन्त चतुर्दशी (गणेश विसर्जन)
3	04 नवम्बर 2013	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन (अन्नकूट)

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

सुदाम खाडें, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 59-सामान्य-2012.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-7-2012-एक-4, भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 4 के नियम 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2013 में सिंगरौली जिले के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं :—

क्रमांक (1)	त्यौहार का नाम (2)	दिनांक (3)	दिन (4)
1	मकर संक्रांति / पोंगल	14-1-2013	सोमवार
2	सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या	4-10-2013	शुक्रवार
3	दीपावली का दूसरा दिन	4-11-2013	सोमवार

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/उप कोषागारों एवं बैंकों को छोड़कर जिले में स्थित शेष सभी शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में लागू होंगे.

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्र. 1250-व. लि.-2013.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-एक-4-भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत मैं, सी. बी. सिंह, कलेक्टर, जिला धार वर्ष 2013 के लिये धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

अ. क्र. (1)	त्यौहार का नाम (2)	वार (3)	दिनांक (4)	विवरण (5)
1	श्री शंकर सवारी (छबीना) का दूसरा दिन	मंगलवार	3-9-2013	संपूर्ण तहसील बदनावर के लिए
2	अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन	बुधवार	18-9-2013	संपूर्ण धार जिले के लिए
3	विजयादशमी का दूसरा दिन	सोमवार	14-10-2013	संपूर्ण धार जिले के लिये
4	उर्स	शुक्रवार	20-12-2013	तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण धार जिले के लिये.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

सी. बी. सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. एफ-1-6-12-रा.स.-यू.ए. 1-148.—मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 20 सन् 1991) की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 01 की कण्डिका 02 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

1. प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति, वर्द्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)	समिति के चेयरमेन	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2. प्रो. अतुल शर्मा, महात्मा गांधी नेशनल फेलो, इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च एवं विजिटिंग प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन डवलपमेंट, नई दिल्ली	समिति के सदस्य	चेयरमेन, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा नामांकित
3. न्यायमूर्ति श्री व्ही. के. अग्रवाल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, म.प्र. उच्च न्यायालय, बी-12, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल-462003	समिति के सदस्य	विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित

(2) महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा प्रो. विनय कुमार पाठक को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. 176-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला .	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	निवारी 21/65 बंदो. नं. 309.	70.350	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट-1 शीर्ष कार्य हेतु डुबान क्षेत्र.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 176-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	सालहें कला प.ह.नं. 21/65. बंदो. नं. 563.	10.250	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट-1 शीर्ष कार्य हेतु बंड लाईन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 176-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	साल्हेँ खुर्द प.ह.नं. 21/65. बंदो. नं. 564.	4.55	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट-1 शीर्ष कार्य हेतु डुबान क्षेत्र.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 176-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	साल्हेँ कला प.ह.नं. 21/65. बंदो. नं. 563.	67.210	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट-1 शीर्ष कार्य हेतु डुबान क्षेत्र.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 176-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	साल्हेँ कला प.ह.नं. 21/65. बंदो. नं. 563.	7.490	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट-1 शीर्ष कार्य हेतु स्पिल चैनल.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 176-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	बम्हनी 66 बंदो. नं. 380.	91.020	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट-1 शीर्ष कार्य हेतु डुबान क्षेत्र.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2012-13-संशोधित अधिसूचना.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	ग्वारा ह.नं. 07	1.30	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) मण्डला.	हवाई पट्टी निर्माण हेतु
		बाजा ह.नं. 03	1.16		
		सुनेहरा मा.ह.नं. 07	0.09		
		ढेंको ह.नं. 04	0.96		
		कुल योग . .	3.51		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मण्डला, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	नारायणगंज	कोबरी कला प.ह.नं. 35	1.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, निवास.	कोबरी कला जलाशय-वेस्टवियर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. भू.अ.अ.-2012-13-प्र.क्र. 01 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	भैंसा	0.01	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण	गैसावाद-अदनवारा-वलेह
		रमपुरा	1.18	विभाग (भ/स), दमोह.	मार्ग निर्माण में आने वाली
		योग .	1.19		भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजना के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 23 जनवरी 2013

प्र. क्र. 05-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	शामगढ़	सूरजना नया	6.60	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	पालखंदा तालाब (पूरक
				विभाग गांधीसागर.	प्रकरण).

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 जनवरी 2013

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 21-12-पत्र क्र. .भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	पाला	0.125	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 09, मैहर, सतना.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सतना-रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 153-भू-अर्जन-प्र. क्र. 40-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	दक्षिण पॉचपुला	120.05 (व.मी.) शासकीय भूमि में स्थित मकान-4	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर जिला बड़वानी. (म. प्र.).	लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 154-भू-अर्जन-प्र. क्र. 41-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	वेदपुरी	74.80 (व.मी.) (निजी भूमि में स्थित मकान-1).	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर जिला बड़वानी. (म. प्र.).	लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 155-भू-अर्जन-प्र. क्र. 42-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	वेदपुरी	66.20 (व.मी.) (शासकीय भूमि में स्थित मकान-2).	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर जिला बड़वानी. (म. प्र.).	लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 156-भू-अर्जन-प्र. क्र. 43-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	पॉंचपुला उत्तर	1190.91 (वर्ग.मी.) निजी भूमि में स्थित संपत्ति मकान-20 एवं कुआँ-1	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर जिला बड़वानी. म. प्र.	लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 157-भू-अर्जन-प्र. क्र. 44-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	पॉंचपुला उत्तर	निजी कृषि भूमि रकबा 2.141 (हेक्टेयर).	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर जिला बड़वानी. (म. प्र.).	लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 229-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	तेंदुन	0.012	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के ग्राम तेंदुन के हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.012 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 231-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बैकुण्ठपुर-408	0.048	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.048 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 233-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पाली कोठार, 300	0.002	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.002 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 235-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पाली अमरीश सिंह 301	0.068	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.068 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 237-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हटवा कोठार	0.114	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.114 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 जनवरी 2013

पत्र क्र. 259-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	खूँधी	0.920	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 261-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	बुदामा	2.050	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 263-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	गीधा	1.50	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 265-प्रका.भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	डीह	1.980	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-12-13-अ-82-170.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भिण्ड	लहार	लहार	5223	0.090	कार्यक्रम समन्वयक कृषि	कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार
			5224	0.030	विज्ञान केन्द्र, लहार.	के रास्ता हेतु.
			5129	0.010		
			योग . .	0.130		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लहार जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 31 जनवरी 2013

प्र. क्र. 1 अ-82-वर्ष 11-12-भू-अर्जन-1064.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	डुल्हारा	25.802	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	डुल्हारा जलाशय तथा स्पिल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 1 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-1065.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	छिन्दवाड़ सवासन.	31.932	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, बैतूल.	छिन्दवाड़ जलाशय एवं स्पील तथा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 1016-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—ब्यावरा, रामगंज मण्डी से भोपाल नई रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
- (ग) नगर/ग्राम—पीपलबे, बंजारी, चाठा, मोया, चमारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—30.829 हेक्टेयर.

क्रमांक	ग्राम का नाम	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पीपलबे	7.841	रामगंज मण्डी से भोपाल नई रेलवे लाईन निर्माण हेतु.	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)
2	बंजारी	7.157		द्वितीय पश्चिम मध्य रेलवे
3	चाठा	6.877		कोटा.
4	मोया	4.322		
5	चमारी	4.632		
कुल योग . .		30.829		

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रामगंज मण्डी से भोपाल नई रेलवे लाईन निर्माण हेतु तहसील ब्यावरा के ग्राम पीपलबे बंजारी, चाठा, मोया, चमारी की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 89-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—सिकरोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.58 हेक्टेयर.

सर्वे कुल रकबा अर्जित किये जाने
नम्बर (हेक्टर में) वाला अनुमानित
रकबा (हेक्टर में)

(1)	(2)	(3)
463/1	0.010	0.03
463/2	0.042	
459	0.345	0.13
444	0.052	0.03
448	0.961	0.42
423/2	0.366	
423/3	0.178	0.44
404	0.543	0.13
327	0.397	0.03
314	0.261	0.13
313	0.293	0.18
270	0.387	0.07
267	0.084	0.07
253/1/1	0.122	
253/1/2	0.123	0.23
253/1/3	0.246	
252	0.428	0.10
464/1/1	0.402	
464/1/2	0.435	
464/1/3	0.030	0.37
464/2/2	0.015	
464/3/1	0.212	
464/3/2	0.227	
464/2/1	0.424	

(1)	(2)	(3)
263/1	0.031	0.031
421	0.481	0.01
462	0.387	0.01
248	0.188	0.03
262	0.606	0.14
465/1	0.037	
465/2	0.036	0.03
458	0.084	0.07
457	1.233	0.06
445	1.003	0.32
455	0.721	0.02
450	0.721	0.33
425	0.428	0.18
406	0.293	0.02
403/मिन 1	0.418	
403/मिन 2	2.090	0.42
403/मिन 3	0.345	
334/1	0.627	
334/2	0.627	0.38
334/4 मिन 1	0.052	
334/4 मिन 2		
334/5	0.480	
322/4	0.941	
322/1/मिन 1	0.115	
322/1/मिन 2/क	0.356	
322/1 मिन-2/ख	0.010	0.53
322/2 मिन-1	0.523	
322/2 मिन-2	1.672	
322/5	0.157	
322/6	0.084	
325	0.355	0.24
320	0.428	0.08
329/1/मिन 1	1.264	
329/1/मिन 2	0.826	
329/2/मिन 1	0.732	0.19
329/2 मिन 2	0.502	
466/1	0.345	
466/2	0.355	0.01
250/1/2	0.096	
250/2	0.157	
250/3	0.107	0.12
250/1/1	0.228	

योग : 5.58

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 90-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—जखारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.21 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
----------------	--------------------------	--

(1)	(2)	(3)
314	2.801	0.58
311	3.166	0.11
317	1.150	0.17
354	0.679	0.04
301	1.390	0.40
285	1.118	0.42
286	1.160	0.32
287/1	0.408	
287/2	0.387	0.21
287/3	0.387	
60	0.533	0.35
62	0.533	0.02
61	0.094	0.04
67	0.857	0.38
68	1.150	0.04
52	0.763	0.15
50	0.857	0.32
44	0.261	0.03
45	1.234	0.14
41	1.421	0.18
37	0.115	0.04
38	0.920	0.18
21	1.965	0.43
22	1.118	0.24
16	0.700	0.22
3	0.920	0.31

(1)	(2)	(3)
4	0.909	0.03
333	1.682	0.33
331	0.115	0.02
313/1	0.554	
313/2	0.272	0.31
313/3	0.272	
31	0.857	0.09
49/1	0.941	
49/2/क	0.042	0.01
49/2/ख	0.428	
17	0.815	0.10
योग :		6.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 114-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—उटीला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.610 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
----------------	--------------------------	--

(1)	(2)	(3)
515	0.345	0.020
512	0.261	0.110
511/1	0.585	
511/2	0.178	0.080
511/3	0.387	
457	1.944	0.150

(1)	(2)	(3)
510	3.104	0.390
594	0.867	0.230
493/1	1.024	0.320
493/1/मिन-1	0.513	
493/2/मिन-2	1.431	
456/2	1.568	0.250
455	1.400	0.100
454	0.564	0.160
335/1	1.034	0.240
335/2	1.202	
340	0.831	0.200
341	0.627	0.070
346/1	0.073	
346/2	0.136	0.270
346/3	0.669	
346/4	1.912	
348	0.178	0.020
347	0.282	0.060
357	1.024	0.030
358/1	0.538	
358/2	0.538	0.190
359/1	2.195	0.450
359/2	2.247	0.450
375/1	0.042	
375/2	0.115	
375/3 मिन-1	0.627	
375/3 मिन-2	0.209	0.020
375/4	1.285	
375/5	1.254	
366/1	0.232	0.080
366/2	0.552	
364	0.146	0.020
361	0.658	0.100
362	0.554	0.040
263	0.553	0.010
योग :		<u>3.610</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 आर एवं एम-1 एल के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 119-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बेरजा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.75 हेक्टेयर.

सर्वे कुल रकबा अर्जित किये जाने
नम्बर (हेक्टर में) वाला अनुमानित
रकबा (हेक्टर में)

(1)	(2)	(3)
940/2	0.941	
940/3	0.941	
940/4	0.47	
940/5	0.47	
940/6/क	0.08	
940/6/ख	0.08	
940/6/ग	0.08	0.041
940/7	0.909	
940/8/क	0.055	
940/8/ख	0.056	
940/8/ग	0.056	
940/9	1.055	
941/1/मिन-1	0.136	
941/1/मिन-2	0.136	
941/4	0.031	
941/5/मिन-2	0.24	
942/2	0.836	
942/3/क	0.282	
942/3/ख	0.282	
942/3/ग	0.282	
942/4/क	0.390	
942/4/ख	0.390	
942/4/ग	0.390	0.03
942/5/क	0.69	
942/5/ख	0.070	
942/5/ग	0.070	
942/6	1.013	
943/3/क	0.105	

ग्वालियर, दिनांक 22 जनवरी 2013

(1)	(2)	(3)
943/3/ख	0.105	0.23
943/3/ग	0.104	
945/1	0.408	
945/2	1.045	0.08
योग :		<u>0.750</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-4 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 128-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—चन्द्रपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.830 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
281	1.250	0.360
296	1.070	0.230
297	1.280	0.120
161	2.420	0.020
324	1.330	0.030
285	0.190	0.020
328	0.730	0.050
योग :		<u>0.830</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-4 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 129-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सुपावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.670 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
280/1/मिन-4	0.418	0.040
280/5	0.418	
280/2	0.157	
280/1/मिन-1	0.209	0.110
280/1/मिन-2	0.418	
280/1/मिन-3	1.285	
280/4	0.523	0.030
281/1	0.209	
281/2	0.021	
281/3	0.052	0.230
282/1	—	
282/2	—	
282/6	0.857	0.140
283	0.857	
232/1/मिन-1	0.418	
232/1/मिन-2	1.703	0.140
232/2	0.334	
232/3	0.334	
232/4	1.097	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
233/1	1.200		473	0.261	0.150
233/2	1.200		400	0.606	0.060
233/3	1.200		402/1	0.418	
233/4	0.810	0.330	402/2	0.146	0.020
227/1/मिन-1	1.045		403	0.585	0.110
227/1/मिन-2	1.170		405	0.596	0.110
227/1/मिन-3 क	1.200		406	0.314	0.070
227/2	0.314	0.360	407	—	0.120
227/3/क	0.209		408/1	0.659	0.150
227/3/ख	0.314		417	0.888	0.210
227/3/ग	0.105		418	0.063	0.030
226/1/मिन-2	1.045		419/1	0.272	
226/1/मिन-3	0.836	0.260	419/2	0.679	0.070
226/2	0.240		474/4	0.230	
226/5	0.105		474/3	0.230	0.180
225	1.714	0.400	574/1	0.732	
223/1/मिन-1	0.261		574/4	0.543	0.210
223/1मिन-2	0.572		575/5	0.084	
223/2	0.941		575	0.314	0.100
155/1/मिन-1	0.314	0.090	577/1	0.0420	
155/1/मिन-2/क	0.418		577/2	0.0420	0.020
155/1/मिन-2/ख	0.418		592/मिन-1	0.334	
155/2	0.784		592/मिन-2	0.272	0.090
155/3	0.470		592/मिन-3	0.542	
155/1मिन-4	0.627	0.510	583/मिन-1	0.073	
155/4	0.627		583/मिन-2	0.273	0.100
155/5	0.836		584/मिन-1	0.685	
155/6	0.314		584/मिन-2	0.157	0.190
155/7	0.209	0.050	585/मिन-1	0.125	
153/1	0.596		585/मिन-2	0.127	0.010
154/1/मिन-1/क	1.000	0.070	582	0.585	0.030
154/1/मिन-1/ख	1.142		567/मिन-1	0.564	
154/2/मिन-2	1.003		567/मिन-2	0.570	0.030
154/3	0.105		556	0.815	0.140
398/1	0.470	0.160	566	0.345	0.100
398/2	0.471		564	0.982	0.050
475/1/मिन-2	0.105		565/मिन-2	0.209	0.03
475/ए	—		495	0.794	0.130
475/5/क	0.267				
475/3/ख	0.241	0.190			
475/5ख	0.470				
475/6	0.052				
475/3/क	0.282				
475/7	0.418				

(1)	(2)	(3)
493/4	0.073	0.150
486	1.411	0.040
योग :		<u>5.670</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की एम-5 आर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 24 जनवरी 2013

प्र. क्र. 136-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—बड़ेरा भारस
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.158 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
38/2	0.158
योग. . <u>0.158</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी 2013

प्र. क्र. 137-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—ओहदपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19800 वर्गफुट

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा
(1)	(2)

273/मिन-1 0.999 हे. में से
योग. . 19800 वर्गफुट

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नवीन न्यायालय भवन, ग्राम ओहदपुर, मुख्य मार्ग से न्यायालय को आने-जाने के लिए रास्ता हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 21 जनवरी 2013

प्र. क्र. 47-अ-82-वर्ष-2011-12-भू-अर्जन-681.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—दातौरा, पटवारी हल्का नम्बर 11		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.608 हैक्टर.			
खसरा	रकबा		
नम्बर	(हेक्टर में)		
(1)	(2)		
8	0.030	626	0.030
9	0.139	602/1	0.028
11	0.190	602/2	0.102
22/1	0.221	598	0.242
202/1	0.056	604	0.030
22/2	0.088	564/2	0.039
156	0.139	564/3	0.102
23/4	0.058	563	0.023
23/6	0.172	551/1	0.074
502/7	0.093	562	0.098
23/7	0.058	551/2	0.074
24/1	0.058	264	0.029
178/1	0.107	549	0.156
172	0.072	266	0.139
24/2	0.214	269	0.116
162/1	0.004	268	0.020
178/2	0.135	271	0.128
25	0.469	481	0.100
274/3	0.158	480/1	0.088
179/2	0.004	465	0.042
180	0.012	565/1	0.035
185	0.004	223/1	0.253
452	0.042	223/3	0.020
453	0.153	221/3	0.098
451/2	0.116	223/5	0.032
451/1	0.018	217/2	0.077
445/3	0.255	217/4	0.056
445/1	0.153	218/1	0.125
444/2	0.144	221/5	0.139
438	0.107	221/6	0.086
439	0.015	237	0.107
447	0.107	231	0.090
526/1	0.163	232	0.109
526/2	0.130	155/5	0.084
599/2	0.074	213	0.042
631	0.028	272	0.084
567	0.102	265	0.107
627	0.032	599/3	0.070
630	0.065	599/1	0.109
629	0.079	181	0.372
628/1	0.130	184	0.020
		171	0.098
		466	0.232
		502/12	0.107
		502/9	0.007

(1)	(2)
507/2	0.111
504/4	0.070
508/2	0.102
508/1	0.125
200/3	0.130
239	0.209
200/4	0.221
600/1	0.065
601/2	0.135
570/1	0.037
571/1	0.037
170	0.074
512/24	0.032
570/2	0.070
565/2	0.107
565/3	0.051
246/1	0.004
445/2	0.177
233/2	0.232
220/1	0.008
389	0.065
208	0.006
210	0.004
205/1	0.088
476	0.334
472	0.121
473	0.056
446	0.042
467	0.111
273	0.171
योग . .	<u>11.608</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देहगुड़ जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. एफ-45-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—बंदरहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.360 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
22	1.719
23	0.878
26	0.056
78	0.264
79/1	0.632
79/2	0.482
79/3	0.382
79/4	0.377
79/5	0.302
103	0.677
104/2	0.032
105	0.453
107/2	0.365
107/8	0.763
121/1	0.188
122	0.944
123	0.031
124/1	0.326
135/1	0.493
137/2	0.063
137/3	0.450
139/2क	0.009
142/5	0.074

(1)	(2)
145	0.593
146	0.025
निजी खाता योग :	<u>11.360</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-45-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— (म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—उचेहरा
- (ग) नगर/ग्राम—कंदहली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.677 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
36	0.041
37/1क	1.100
37/1ख	0.462
37/1 ग	1.258
37/2	0.617
38/1क	1.115
67	0.954
68	0.130
निजी खाता योग :	<u>5.677</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-46-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— (म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—उचेहरा
- (ग) नगर/ग्राम—इचौल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.270 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
125/1	0.166
1155	0.104
निजी खाता योग :	<u>0.270</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-47-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— (म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—उचेहरा
- (ग) नगर/ग्राम—कोरबारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.018 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
740/1	0.018
निजी खाता योग :	<u>0.018</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. 3-अ-82-2011-12-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—माढ़ोताल, न. बं. 660, प. ह. नं. 25/31
नया-01
(घ) लगभग क्षेत्रफल 4.801 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
130	0.793
131/1	0.265
131/2	0.167
138	0.125
139	0.669
140	0.383
142	0.780
147/1	0.029
147/2	0.093
148/1	0.067
148/2	0.455
149/3	0.362
150/1, 150/2	0.360
175/1	0.253
योग :	<u>4.801</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ए. आर.पी. फोर एवं वैकल्पिक सड़क से प्रभावित भूमि के अर्जन बावत्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 223-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पटेहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.240 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	अशासकीय भूमि (हे. में.)	शासकीय भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
952	0.160	—
953	0.080	—
योग . .	<u>0.240</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 225-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बरहा 345
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.562 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
50	0.210	
49	0.028	
48	0.028	
47	0.052	
70	0.028	
46	0.052	
44	0.056	
43	0.056	
35	0.052	
योग . .	0.562	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 239-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

- (ग) ग्राम—पौड़ी पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.394 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
232	0.098
233	0.066
109	0.159
110	0.019
331	0.052
योग . .	0.394

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. 243-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—घोड्डिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.405 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
1	0.032	-
2	0.028	-
3	0.32	-
25	0.006	-
33	0.019	-
योग . .	0.405	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 245-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—बड़ागाँव 375
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.403 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
3034	0.010	—
3035	0.016	—
3038	0.006	—
3039	0.032	—
3040	0.037	—
3048	0.012	—
3049	0.058	—
3050	0.064	—
3051	0.128	—
3052	0.040	—
योग . .	<u>0.403</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 247-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—बुदामा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.053 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
16	0.104	—
17	0.115	—
18	0.064	—
19	0.032	—
20	0.160	—
33	0.450	—
34	0.138	—
37	0.048	—
38	0.104	—
39	0.115	—
40	0.190	—
41	0.135	—
42	0.074	—
46	0.130	—
योग . .	<u>2.053</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 249-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—नष्टगवाँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.394 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
------------------------	------------------------------------

(अ) निजी पट्टे की भूमि

447	0.170
448	0.080
449	0.040
462	0.085
461	0.075
460	0.060
512	0.040
513/1, 513/2	0.070
501/1, 501/2	0.140
508/1, 508/2, 508/3, 508/4, 508/5, 508/6 508/7	0.130
509	0.100
505	0.060
502	0.020
503/1, 503/2, 503/3, 503/4	0.200
510	0.004
506/1, 506/2, 506/3	0.120

(ब) शासकीय भूमि
योग . . 1.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्बहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 251-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—अजौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.731 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
------------------------	------------------------------------

(अ) निजी पट्टे की भूमि

1263/1, 1263/2, 1263/3	0.101
1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4	0.049
1261	0.081
1264	0.049
1265	0.077
1266	0.085
1221	0.150
1146/1/क, 1146/1/2	0.032
1218	0.021
1219	0.174
1147	0.080
1173	0.056
1174/1, 1174/मिन-2/1, 1174/मिन-2/2	0.101
1175	0.056
1176	0.040
1182	0.152
1184	0.105
1187	0.072
1194	0.064
1188	0.016
1196/1/क, 1196/2, 1196/3	0.101
1195	0.057
1197	0.012
	1.731

(ब) शासकीय भूमि
योग . . 1.731

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 253-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—मलपार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.915 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
------------------------	------------------------------------

(अ) निजी पट्टे की भूमि

411	0.130
412/1,412/2	0.040
409	0.120
408	0.110
407	0.040
406	0.005
435/1,435/2	0.050
437/1,437/2	0.030
438	0.060
439	0.090
440	0.040
442	0.200
	<u>0.915</u>

(ब) शासकीय भूमि निरंक योग . . 0.915

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 255-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—अतरसुई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.160 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
------------------------	------------------------------------

(अ) निजी पट्टे की भूमि

391/1	0.050
392	0.210
393/1, 393/2, 393/3	0.130
390	0.140
394	0.010
384/1	0.030
418	0.140
419	0.130
421	0.050
423	0.140
425	0.130
	<u>1.160</u>

(ब) शासकीय भूमि निरंक योग . . 1.160

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 257-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—गोपालपुरवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.326 हेक्टर.
- खसरा अर्जित रकबा
- क्रमांक (हेक्टर में)
- (1) (2)
- (अ) निजी पट्टे की भूमि
- 351/1/1, 351/1/2, | 0.016
- 351/2/1, 351/2/2 |
- 352 0.190
- 354/1, 354/2 0.120
- योग . . 0.326
- (ब) शासकीय भूमि - निरंक
- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 268-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—गोपालपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.83 हेक्टर.
- खसरा अर्जित रकबा
- नम्बर (हेक्टर में)
- (1) (2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

112	0.06
113	0.03

(1)	(2)
114	0.07
115	0.03
120	0.01
121	0.04
130	0.03
133	0.07
134	0.04
135	0.11
137	0.13
147	0.11
148	0.13
149	0.01
972	0.06
973	0.04
974	0.02
991	0.09
992	0.02
993	0.05
997	0.04
998	0.04
999	0.03
1003	0.01
1004	0.05
1009	0.07
1010	0.04
1011	0.05
1020	0.02
1021	0.07
1027	0.03
1028	0.01
1029	0.07
1032/1	0.03
1037/1	0.04
1038	0.08
योग (अ) कुल निजी भूमि	1.83

म. प्र. शासन की भूमि

कुल शासकीय भूमि- निल

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की गोपालपुर माइनर के अन्तर्गत पटेहरा सबमाइनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 270-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—सुपिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.093 हेक्टर (अतिरिक्त रकबा)

खसरा अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्टर में)

(1) (2)

597 0.071

598 0.007

600 0.015

योग. . 0.093

शासकीय भूमि 0.000

योग. . 0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई के शीर्ष कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. 314-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—कोठिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.69 हेक्टर.

खसरा अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्टर में)

(1) (2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

24 0.14

37 0.02

38 0.03

(1)

(2)

39 0.07

45 0.03

46 0.02

47 0.04

48 0.06

49 0.07

50 0.01

97 0.05

98 0.10

99 0.03

100 0.06

103 0.03

104 0.04

105 0.03

113 0.07

114/1,114/2 0.07

282 0.07

283 0.10

284 0.06

285 0.06

287 0.14

288 0.02

289 0.03

290 0.03

295 0.07

307 0.02

308 0.03

311 0.01

343 0.06

344 0.02

योग अ 1.69

म. प्र. शासन की भूमि

कुल शासकीय भूमि— निल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की कोठिया सब माईनर के अन्तर्गत कोठिया सबमाईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 29 जनवरी 2013

नस्ती क्र. 160-2012-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र.-03-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	मोहद	0.76	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण व अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 162-2012-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र.-04-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बीड़	1.29	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण व अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 161-2012-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र.-05-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	केनूद	1.80	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण व अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. 61-भू-अर्जन-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	सिरपुर	7.122	मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर	अवासीय उपयोग हेतु (योजना क्रमांक 71).

अर्जन से प्रभावित खसरा नंबर :—516/7

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर कार्यालय, जिला इन्दौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, (जिला भू-अर्जन), सिवनी मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्र. 719-जिला भू-अर्जन-2013-शुद्धि-पत्र.—झाबुआ पावर लिमिटेड को ग्राम बिनेकीकला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी की भूमि उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर, जिला सिवनी एवं श्री संजीव मेंदीरत्ता, डायरेक्टर, झाबुआ पावर लिमिटेड के बीच दिनांक 10 अगस्त 2012 को अनुबंध निष्पादित किया गया था. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 अनुबंध पत्र राजस्व प्रकरण क्र. 11-अ-82-2010-11 व कलेक्टर कार्यालय का पत्र क्र. 6830/जिला भू-अर्जन/2012, दिनांक 28 अगस्त, 2012 की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 7 सितम्बर, 2012 को राजपत्र भाग-1, पृष्ठ क्र. 3275 से 3278 पर किया गया जिसमें पृष्ठ क्र. 3276 पर लिपिकीय त्रुटि के कारण खसरा नं. 177 रकबा 0.87 हे. का अनुबंध हो गया है, जिसे संशोधन कर खसरा नं. 117, रकबा 0.87 हे. पढ़ा जाये.

अजीत कुमार, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. 73-भू-अर्जन-2013-प्रकरण क्रमांक-01-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच
(ख) तहसील—नीमच
(ग) नगर/ग्राम—हनुमंतिया पंवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.56 हेक्टेयर.

ग्राम:—हनुमन्त्या पंवार (डूब भूमि/बांध निर्माण)

सर्वे नम्बर	बांध निर्माण में अधिग्रहित हेतु (रकबा हे. में)
(1)	(2)
157	0.20
140	0.36
योग . .	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम हनुमन्त्या पंवार, तहसील नीमच, जिला नीमच में ठीकरिया मध्यम सिंचाई योजना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. 867-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—नरसिंहगढ़
(ग) नगर/ग्राम—गीलाखेडत्री
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.800 हेक्टर.

सर्वे क्र.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—गीलाखेड्री	

424	0.120
425	0.150
426/2/2	0.360
426/3/2	0.135
735/37	0.180
735/38	0.150
736/1	0.210
737	0.300
770/1	1.088
770/2	1.087
772	1.176
773	1.429
774	0.177
775	1.366
776/1/1	0.123
776/1/2	0.123
776/1/3	0.124
776/2	1.680
777	0.822
योग . .	10.800

अधिवासित भूमि	निरंक
अनाधिवासित भूमि	10.800 हेक्टर में
कुल योग . .	10.800 हेक्टर में

अनुसूची-2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—औद्योगिक क्षेत्र हेतु बाईपास एप्रोच मार्ग एवं क्षेत्र विस्तार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 813-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—जैतहरी

(ग) ग्राम—जैतहरी, पटवारी हल्का जैतहरी, पटवारी हल्का नं. 68, ज. नं. 362 राजस्व निरीक्षक मण्डल—जैतहरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.749 हेक्टर.

खसरा संख्या

लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)

(1)

(2)

13	0.102
15/1, 15/2, 15/3	0.706
22/1, 22/2	0.043
25/1, 25/2, 25/3	0.064
26/1, 26/2, 26/3,	0.938
26/4, 26/5, 27/2	
40/2/ख, 40/2क, 40/3, 59/2	0.581
60/1, 60/2	
72	0.013
129/1, 129/2/ख,	0.040
129/2/क/1, 129/2/क/2	
130/1, 130/2/क/1, 130/2/क/2	0.101
131/1, 131/2, 131/3/ख,	0.419
131/3/क/1, 131/3/क/2	
132	0.173
135/1	0.305
135/2	
136	0.474
141	0.070

(1)	(2)
143/1, 143/2, 143/3, 143/4	0.125
144/1, 144/2, 144/3	0.551
145/1, 145/2, 145/3	0.288
145/4, 145/5	
146/1, 146/2, 146/3	0.104
148/1, 148/2	0.363
211/1, 211/2	0.373
212	0.002
214	0.091
215	0.117
216	0.062
217/1, 217/2	0.159
218/1, 218/2	0.066
219	0.046
220, 228/1/ख/1	0.010
228/1/ख/2	
228/1क, 228/1ग	0.348
268/1, 268/2	0.131
277/1, 277/2	0.024
278/1, 278/2	0.158
279/1, 279/2, 280/1/ख	0.044
280/1/क, 280/2	0.091
283/2186/1, 283/2186/2,	0.193
283/2186/3, 283/2186/4,	
283/2186/5, 283/2285,	
283/2286, 283	0.252
284	
285/1, 285/2, 285/3/ख,	0.065
285/3/क/1/ख, 285/3/क/1/क	
285/3/क/2, 286/1/ख/1,	
286/1/ख/2, 286/1/ख/3,	
286/1क, 286/2/ख/1,	0.417
286/2/ख/2, 286/2/क,	
286/3/ख, 286/3/क	
287/1, 287/2/ख, 287/2/क	0.408
288/1, 288/2,	0.010
293/1/ख/1, 293/1/ख/2	
293/1/क, 293/2	0.219
294	0.081
295/1, 295/2,	0.194
296/1, 296/2	0.129
297	0.073
298	0.079
300/1/क, 300/1/ख, 300/2	0.037

(1)	(2)	(1)	(2)
303/1/क, 303/1/ख, 303/2	0.002	1455/1/क, 1455/1/ग,	
1278/1, 1278/2, 1278/2239	0.342	1455/2, 1455/3, 1455/4	
1287/2	0.109	1455/5, 1455/6, 1455/7	0.886
1288	0.170	1455/8	
1289	0.196	1456/1, 1456/2, 1456/3	0.038
1295	0.295	1468	0.033
1304	0.258	1469/1, 1469/2, 1469/3	0.111
1305/1, 1305/4	0.157	1470	0.032
1306/1		1473/1, 1473/2, 1473/3	0.454
1306/2	0.102	1474	0.185
1307	0.117	1476/2/क, 1476/3	0.268
1358/1, 1358/2	0.200	1477	0.194
1359/1, 1359/2, 1359/3	0.138	1478	0.322
1360/1, 1360/2, 1360/3	0.019	1479	0.250
1361/1, 1361/2, 1362/1	0.055	1408/2251	0.109
1362/2	0.205	2252	0.063
1363/2249	0.034	2253	0.171
1363	0.124	2314/1, 2314/2/ख	
1368/1, 1368/2	0.081	2314/2/क, 2314/2/ग	0.868
1369	0.182	2314/3, 2314/4	
1370/1, 1370/2,	0.383	2315	0.160
1371/1, 1371/2, 1371/3	0.120	2316	0.389
1372	0.043	2322	0.022
1406	0.010	2323/2	0.437
1407	0.022	2324	0.347
1408	0.101	2325/1, 2325/2	0.506
1424/2	0.025	2329	0.063
1429	0.012	2333	0.206
1430/1, 1430/2	0.310	2334/1, 2334/2	0.306
1431	0.028	2335	0.213
1432	0.057	2336	0.279
1434	0.025	2338/1, 2338/2	0.083
1435	0.224	2348	0.374
1441	0.025	2358	0.17
1442/1, 1442/2	0.217	2385	0.110
1443/1, 1443/2,		2400	0.025
1443/3, 1443/4	0.341	2401	0.778
1445/1, 1445/2		2403/1, 2403/2, 2403/3	1.126
1445/3, 1446/1/ख	0.334	2404	0.089
1446/1/क, 1446/2, 1446/3	0.195	2405/1, 2405/2, 2407/3/क	0.219
1447/1, 1447/2, 1447/3	0.148	योग . .	24.749
1448/1, 1448/2	0.067		
1449/1, 1449/2,			
1455/1/घ, 1455/1/ख	0.052		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—एम.बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, अनूपपुर द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के कोयला आपूर्ति एवं रेल्वे लाइन तथा रेल्वे साईडिंग निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.	(1)	(2)
	173/12	0.809
	571	0.410
	572/1ख	1.011
	572/3	0.607
	572/4	1.214
	572/5	0.405
	572/6	0.809
	573	0.089
	575	0.105
	576/2	0.849
	576/3	0.801
	577	0.109
	580	0.894
	585	0.219
	604	0.032
	605	0.097
	620	0.809
	621	0.101
	623	0.502
	624	0.020
	625	0.344
	627	0.494
	629	0.061
	630	0.012
	632/1, 632/2	0.121
	639	0.020
	689	0.433
	690/2	0.607
	690/3	0.405
	691	0.162
	2356	0.506
	2359/1	0.277
	2359/2	0.278
	2361	0.352
	2363	1.344
	2365	0.235
	2367	0.275
	2368/1	0.253
	2368/2	0.253
	2369	0.437
	2372	0.809
	2374	0.466
	2377	0.547
	2379	0.47
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—अनूपपुर		
(ख) तहसील—अनूपपुर		
(ग) ग्राम—धुरवासिन, पटवारी हलका धुरवासिन, पटवारी हलका नं. 52, ज.नं. 52, रा.नि.मं. फुनगा.		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—51.987 हेक्टेयर.		
खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
164/1क, 164/1ख	0.817	
166	1.011	
167	0.170	
168	0.441	
169	1.108	
170/2	2.606	
171/2	0.405	
172/1, 172/2, 172/3, 172/4	1.461	
173/1ख	1.214	
173/1ग	0.405	
173/1घ	1.214	
173/2	0.405	
173/3	2.023	
173/4	0.809	
173/5	0.405	
173/6	0.405	
173/7	0.801	
173/8	0.801	
173/9	0.801	
173/10	0.607	
173/11	1.214	

(1)	(2)	(ग) ग्राम—कोटमी, पटवारी हल्का पडौर, पटवारी हल्का नं. 52, ज.नं. 98, रा.नि.मं. फुनगा.	
2381	0.283	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.830 हेक्टेयर.	
2384	0.602	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
2385	0.547	(1)	(2)
2386	1.004	229	0.486
2388	0.174	230	0.890
2390	0.041	231	0.324
2391	0.182	242/1, 242/2	0.400
2392	0.401	243	0.730
2395	0.433	योग . .	2.830
2396	0.450	अनुसूची	
2397	0.506		
2398	0.020	(3) भूमि का वर्णन—	
2399	0.150	(क) जिला—अनूपपुर	
2400	1.700	(ख) तहसील—अनूपपुर	
2402	0.312	(ग) ग्राम—पडौर, पटवारी हल्का पडौर, पटवारी हल्का नं. 53, ज.नं. 100, रा.नि.मण्डल फुनगा.	
2404	0.490	(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.313 हेक्टेयर.	
2405	0.223	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
2406	1.668	(1)	(2)
2407	0.466	53/2	0.405
2408	0.312	64/1	0.081
2409	0.652	64/2	0.089
2410	0.648	64/3	0.085
2411	0.142	65	0.312
2412	0.485	66	0.263
2413	0.036	68/1	0.267
2414/1	0.148	68/2	0.089
2414/2	0.113	68/3	0.089
2414/3	0.154	68/4	0.089
2414/4	0.154	71	1.271
2415	0.425	72	0.150
2416	0.121	73	3.177
2417	0.324	74/1	0.235
2462	0.445	74/2	0.237
योग . .	51.987	74/3	0.237
अनुसूची		74/4	0.237
		योग . .	7.313
(2) भूमि का वर्णन—		(क) जिला—अनूपपुर	
		(ख) तहसील—अनूपपुर	

अनुसूची		(1)	(2)
(4) भूमि का वर्णन—		65/107/4	0.032
(क) जिला—अनूपपुर		65/107/5	0.032
(ख) तहसील—जैतहरी		65/107/6	0.162
(ग) ग्राम—रोहिलाकछार, पटवारी हल्का-क्योंटार, पटवारी हल्का नं. 29, ज. नं. 308, राजस्व निरीक्षक मण्डल-जैतहरी.		65/107/7	0.162
		65/108	0.567
		66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6	5.252
(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.757 हेक्टेयर.		82/2ख, 82/3	0.607
खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7क, 83/7ख	1.600
(1)	(2)	84/3	0.350
1/1	1.711	85/3	2.225
1/3	0.607	योग . .	26.757
1/4	0.324		
2/2	1.092		
3/1ख, 3/2, 3/3क,	3.710		
3/3ख, 3/4, 3/5			
4	0.243		
56/1, 56/2, 56/3, 56/4,	1.000		
56/5, 56/6, 56/7			
57	0.154		
58/1, 58/2, 58/3, 58/4,	1.375		
58/5, 58/6, 58/7			
58/110	0.243		
59/2	0.405		
60	0.089		
61	0.105		
62	0.110		
63	1.141		
64	0.559		
64/106/1, 64/106/2,	0.405		
64/106/3,			
64/106/4, 64/106/5			
65/2	1.153		
65/3	0.526		
65/4	0.356		
65/5	0.202		
65/6	0.162		
65/107/1	0.032		
65/107/2	0.032		
65/107/3	0.032		
		अनुसूची	
(5) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—अनूपपुर			
(ख) तहसील—जैतहरी			
(ग) ग्राम—कुकुरगोड़ा, पटवारी हल्का कुकुरगोड़ा, पटवारी हल्का नं. 30, ज.नं. 309, राजस्व निरीक्षक मण्डल-जैतहरी.			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.214 हेक्टेयर.			
खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
201/1, 201/2क, 201/2ख,			
201/3, 201/4क, 201/4ख,	1.214		
201/4ग, 201/4घ, 201/5			
योग . .	1.214		
		अनुसूची	
(6) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—अनूपपुर			
(ख) तहसील—जैतहरी			
(ग) ग्राम—कुसमहाई, पटवारी हल्का क्योंटार, पटवारी हल्का नं. 29, ज.नं. 307, रा.नि.मं.-जैतहरी.			

(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.717 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
141/3	0.417
141/4	0.239
145	0.405
146	1.214
148	1.012
149	1.214
150	0.864
151	0.324
152	1.000
157	0.243
158	0.355
160/3	0.405
160/4क	0.405
160/4ख	0.607
160/4 ग 2	0.809
160/5/4 ग 3	0.405
160/6	0.405
160/7	0.809
160/8	0.809
160/9	0.405
160/10	1.820
161	0.506
162	0.607
163	0.809
182/1	0.202
182/2	0.202
182/3	0.202
182/4	0.203
183	1.259
184/2	1.561
184/3	1.000
योग . .	<u>20.717</u>

अनुसूची

(7) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी

(ग) ग्राम—चोलना, पटवारी हल्का चोलना, पटवारी हल्का नं. 31, ज.नं. 310, रा.नि.मं.—जैतहरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10	0.360
72/3	0.700
73/1ख/1, 73/1ख/2, 73/2	0.260
योग . .	<u>1.320</u>

अनुसूची

(8) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—क्योंटार, पटवारी हल्का—क्योंटार, पटवारी हल्का नं. 29, ज.नं. 306, रा.नि.मं.—जैतहरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—64.504 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/6क/1/क, 2/6क/1/ख, 2/6क/1/ग, 2/6क/2	0.381
3/1	0.101
3/2	1.214
3/4	0.647
146/1	0.405
146/2	0.809
146/4	0.304
147/1	0.062
147/2	0.102
148/2	0.511
149/1	0.085
149/2	0.202
189/1क	0.405
189/1ख	0.405
189/2	0.405
189/3	1.230

(1)	(2)	(1)	(2)
189/4	0.405	145/3	0.214
189/5	1.000	150/1	1.619
189/6	0.809	150/2 ख	0.405
189/9	0.644	150/3	1.000
189/10 क	0.095	150/5	0.202
189/10 ख	0.094	151/1क	0.324
189/10 ग	0.094	151/2	0.012
189/11	0.809	151/3	0.077
234/1 क	0.405	151/4 क	0.044
234/1 ख	0.809	151/4 ख	0.044
234/1 ग 1	0.202	188/1 क	0.068
234/1 ग 2	0.202	188/1 ख	0.068
234/1 घ	0.405	188/1 ग	0.069
234/1 ङ	0.405	188/2	1.619
234/1 च	0.405	188/3 क	1.517
234/2	0.405	188/3 ख	0.506
234/3 क	0.971	188/4	1.214
234/3 ख	0.243	188/5 क	0.652
235/1	0.405	188/5 ख	0.562
235/2 क	0.974	188/6	0.808
235/2 ख	0.405	188/7	0.764
236/1	0.809	188/8	0.405
236/2	0.809	188/9	0.809
236/3	0.809	188/10 क	0.607
236/4	0.809	188/10 ख	0.607
237/1	0.405	188/11	1.214
237/2	0.405	188/12	0.809
237/3	0.405	188/13	0.405
237/4	0.405	188/14	0.405
237/ 6 क	0.153	188/15 क 1	0.263
237/ 6 ख	0.152	188/15 क 2	0.930
237/7	0.304	188/15 क 3	0.182
15	0.684	188/15 क 4	0.182
145/1	0.214	188/15 क 5	0.182
145/2क	0.079	188/15 क 6	0.159
145/2ख	0.072	188/15 क 7	0.200
145/2ग	0.071	188/15 क 8	0.182

(1)	(2)	(1)	(2)
188/15 क 9	0.222	233/6 ग	0.174
188/16	0.405	233/7	0.943
188/17	1.619	155/1	0.048
188/18	0.405	155/3	0.053
188/19	0.809	155/2	0.048
188/20	0.809	155/4	0.052
188/21	0.178	155/5	0.052
233/1क	0.405	4/1क1, 4/1क2, 4/1क3,	1.650
233/1ख	0.809	4/1ख, 4/1ग, 4/2क, 4/2ख,	
233/1ग	0.809	4/3क, 4/3ख, 4/4	
233/1घ	0.271	12/1	0.445
233/1ङ	0.405	12/2	0.198
233/1च 1	0.809	13	0.198
233/1च 2 क	0.202	14	0.180
233/1च 2 ख	0.202	11	0.093
233/1च 2 ग	0.202	238/1, 238/2क, 238/2ख	0.081
233/1 च 3	0.202	321/1क, 321/1ख, 321/1ग,	0.121
233/1 छ	0.405	321/1घ, 321/2क, 321/2ख,	
233/1 ज	0.405	321/3, 321/4	
233/1 झ	0.405	362/1क, 362/1ख, 362/2,	0.304
233/1 ञ	0.405	362/3, 362/4, 362/5,	
233/1 ट	0.405	362/6क, 362/6ख, 362/6ग	
233/1 ड	0.405	363/1क	0.006
233/2 क 1	0.057	363/1ख	0.007
233/2 क 2	0.056	363/1ग	0.007
233/2 ख	0.113	363/2	0.020
233/2 ग	0.117	363/3	0.021
233/2 घ	0.146	363/4क	0.020
233/2 ङ	0.117	363/4ख	0.020
233/2 च	0.117	363/4ग	0.021
233/2 छ	0.117	364/1क, 364/1ख, 364/1 ग 1,	1.181
233/2 छ	0.117	364/1 ग 2, 364/1छ,	
233/3 क	0.053	364/1 ज/क, 364/1 ज/ख	
233/3 ख	0.053	383/2	0.809
233/3 ग	0.053	384/2	0.809
233/3 घ	0.053	385/2	0.910
233/4	0.057	कुल योग . . 64.504	
233/5	0.829	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—एम.बी. पॉवर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, अनूपपुर द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पॉवर प्लांट के बराज निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि तथा उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.	
233/6 क	0.172		
233/6 ख	0.172		

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 818-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—अमगवां, पटवारी हल्का—अमगवां, पटवारी हल्का नं. 60, ज.नं. 11, राजस्व निरीक्षक मण्डल—जैतहरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.756 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1039/1/क/1, 1039/1/क/2/क 1039/1/क/2/ख, 1039/1/क/2/ग 1039/1/क/3/क, 1039/1/क/3/ख 1039/1/क/4, 1039/1/ख/1, 1039/1/ख/2, 1039/1/ख/3, 1039/2	0.331
1548/1, 1548/2, 1548/3, 1548/4, 1548/5, 1548/6, 1548/7, 1548/8	0.082
1549/1, 1549/2, 1549/3	0.150
1550/1, 1550/2/क, 1550/2/ख, 1550/2/ग	0.040
1572/1/2, 1572/1/3, 1572/2, 1572/3, 1572/4, 1572/5, 1572/6	0.634
1574/1, 1574/2, 1574/3	0.030
1575/2	0.163
1578	0.200

(1)	(2)
1580, 1581/1, 1581/2, 1581/3	0.204
1582	0.352
1591/1, 1591/2, 1591/3	0.249
1593/1/1, 1593/1/2, 1593/1/3 1593/1/4, 1593/3/1, 1593/3/2, 1593/4, 1593/5, 1593/2	0.321
कुल योग . .	<u>2.756</u>

अनुसूची

(2) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—गुंवारी, पटवारी हल्का—अमगवां, पटवारी हल्का नं. 60, ज.नं. 231, राजस्व निरीक्षक मण्डल—जैतहरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.581 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
67/1, 67/2	0.174
70	0.026
71	0.022
72	0.075
73/1, 73/2, 73/3	0.051
74/1, 74/2, 74/3	0.090
77	0.143
कुल योग . .	<u>0.581</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—एम.बी. पॉवर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, अनूपपुर द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पॉवर प्लांट के ऐश पाईप लाइन निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन-19(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—घुघरी

(ग) ग्राम—इलाही, प.ह.नं. 81

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

628/1

0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 2 फरवरी 2013

प्र. क्र. 20अ-82-2012-13-280.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—खातेगांव

(ग) ग्राम—मेलपिपल्या (कृषि भूमि) प.ह.नं. 21

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—13.26 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

2/1

0.65

4/1/1

1.10

4/2/1

1.84

6/1

1.78

7/2

0.08

8/1

0.55

9/1

0.35

10/1

0.50

14/2

0.28

15

0.26

31/1

0.26

31/3

0.81

31/4

0.13

33/1

0.75

33/2

0.23

35/2

0.50

35/3

0.06

40/3

0.80

44

0.25

71

0.32

98/1

0.28

101/1

1.48

योग . . 13.26

कुल रकबा— 13.26 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मेलपिपल्या, तहसील खातेगांव, जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20अ-82-2012-13-288.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—टिपरास (कृषि भूमि) प.ह.नं. 32

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—1.99 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71/4	0.07
71/5	0.12
71/6	0.67
84/2	0.12
84/4	0.14
84/5	0.23
84/7	0.30
158 पै.की.	0.34
योग . .	1.99

कुल रकबा— 1.99 हेक्टेयर कृषि भूमि

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम टिपरास तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20अ-82-2012-13-296.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—खातेगांव

(ग) ग्राम—कोटखेड़ी (कृषि भूमि) प.ह.नं. 22

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—3.44 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73	0.30
74	0.15

(1)

(2)

75	0.23
76	0.87
80/1	0.34
80/2	0.62
80/3	0.10
85	0.83

कुल योग . . 3.44

कुल रकबा— 3.44 हेक्टेयर कृषि भूमि

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम कोटखेड़ी, तहसील खातेगांव, जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20अ-82-2012-13-303.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—खातेगांव

(ग) ग्राम—खलास (कृषि भूमि) प.ह.नं. 21

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—16.51 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/1	0.42
16/3	0.64
16/4	1.57
20/1	0.25
21/1	0.28
97/1	0.40
101/1	0.03
101/2	0.08
103/1	0.24
104/1	0.68
105/1	1.60
106/1	0.11
109/1	0.28
110/1	1.25

(1)	(2)
113	1.06
114	0.60
115	0.68
117/1	0.26
117/2	0.88
117/1/3	0.16
117/1/4	0.08
120/1	0.20
122	0.12
125/1	1.15
128/1	0.60
129/1	0.58
130/1	0.34
130/2	0.18
142/2	0.37
143/2	0.25
143/3	0.29
143/5	0.55
163/1	0.33

कुल योग . . 16.51

कुल रकबा— 16.51 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम खलास, तहसील खातेगांव, जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 198-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर

(ख) तहसील—(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर

(ग) ग्राम—मेण एवं मेण मजरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.940 हेक्टर.

खसरा क्रमांक रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
ग्राम—मेण	
150/1/1	पार्ट 0.150
150/1/2/1	पार्ट 0.100
318	पार्ट 0.125
286	पार्ट 0.025
280/2/2	पार्ट 0.150
280/2/1	पार्ट 0.075
280/3	पार्ट 0.650
280/4	पार्ट 0.150
280/5	पार्ट 0.175
281	पार्ट 0.120
282/1	पार्ट 0.260
269	पार्ट 0.030
270	पार्ट 0.015
253	पार्ट 0.020
243	पार्ट 0.055
244	पार्ट 0.150
241/1	पार्ट 0.040
211/4	पार्ट 0.025
211/7	पार्ट 0.125
211/6	पार्ट 0.050
209/3	पार्ट 0.080
209/4	पार्ट 0.040
209/6	पार्ट 0.075
209/1/1	पार्ट 0.270
210	पार्ट 0.090
208	पार्ट 0.125
193/3	पार्ट 0.025
189/1	पार्ट 0.900

योग . . 4.095

ग्राम—मेण मजरा

91/108/2	पार्ट 0.195
91/107/6	पार्ट 0.650

योग . . 0.845

महायोग. . 4.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—राऊ-मण्डलेश्वर राज्यमार्ग-1 का (बी.ओ.टी.) योजनान्तर्गत निर्माण कार्य अर्जन के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील (महू) डॉ. अम्बेडकर नगर एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. 511-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन	1.845	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	हीरामिल एरिया से मक्सी रोड को जोड़ते हुए जीरो प्वाइंट पर रेलवे ओवर ब्रीज के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. 70-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1)(4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	मुण्डलादोस्तदार	3.122	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला खरगोन, (म. प्र.).	नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

झमध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. D-516-दो-2-82-2006.—श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय भोपाल को दिनांक 6 से 7 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. C-684-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2012 तक, चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-686-दो-2-5-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 08 से 09 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 11 नवम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-688-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-690-दो-2-22-2008.—श्री ऋषभ कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-723-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 दिसम्बर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.